

इंदौर में नकली शराब बेचने वालों के ठिकानों पर छापे, अब तक छह लोगों की जा चुकी है जान



Publish Date: Mon, 02 Aug 2021 01:47 AM (IST) Author: **Dhyanendra Singh Chauhan**

जहरीली शराब कांड में पुलिस अब अवैध कारोबारियों का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। शराब के अवैध कारोबार में जुड़े लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने सीमावर्ती जिले खंडवा और खरगोन में भी सर्चिंग की।

इंदौर, जेएनएन। नकली शराब बेचने वालों का नेटवर्क तोड़ने के लिए आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। अधिकारियों को मिले सुराग के बाद आबकारी उपनिरीक्षकों और सिपाहियों के दल सिंधी कालोनी और मूसाखेड़ी पहुंचे लेकिन जिन लोगों पर नकली शराब बेचने का शक था, वे भाग हो गए। इंदौर में अब तक नकली शराब से छह लोगों की मौत हो चुकी है।

आबकारी अमले ने रविवार को स्नेहलतागंज में आरोपित सोमिल हरेंद्र गुप्ता के पास से 19 बोतल विदेशी मदिरा और 225 पाव देसी शराब जब्त की। आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया कि यहां से जब्त विदेशी शराब की बोतलों पर कंपनी का लेबल नकली होने का संदेह है। इस कारण शराब के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं। संबंधित कंपनी को भी इसकी सूचना दी गई है। आरोपित सोमिल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

दो आरोपित युवक एक दिन की रिमांड पर

जहरीली शराब कांड में पुलिस अब अवैध कारोबारियों का नेटवर्क खंगालने में जुट गई है। शराब के अवैध कारोबार में जुड़े लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने सीमावर्ती जिले खंडवा और खरगोन में भी सर्चिंग की।

पुलिस का मानना है कि आरोपितों का नेटवर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, झाबुआ, आलीराजपुर सहित अन्य जिलों और आसपास के राज्यों में भी है। खंडवा में रविवार को आरोपित अंकित और विनय को कोतवाली पुलिस ने एक दिन की रिमांड पर लिया है।

Source: <https://www.jagran.com/news/national-raids-on-the-locations-of-fake-liquor-sellers-in-indore-so-far-six-people-have-lost-their-lives-21886827.html>